

Date: 04.11.2023

Corporate Relations Department <b>BSE Limited</b> 1st Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P J Tower Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001	Corporate Listing Department <b>National Stock Exchange of India Ltd</b> Exchange Plaza, 5th Floor Plot No.C-1, G Block Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400 051.
---	--

**Sub: Intimation of newspaper publication in Form No. INC-26 regarding shifting of Registered Office of the Company.**

**Ref: Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.**

**Scrip Code:** BSE Code: 541700, NSE Code: TCNSBRANDS

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find herewith, enclosed the copy of newspaper publication with respect to the shifting of registered office of the Company in pursuant to Section 13 of the Companies Act, 2013 read with Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014, as amended in Form No. INC-26, published in the following newspapers:

- 1. Business Standard-English on 04<sup>th</sup> November 2023.**
- 2. Business Standard-Hindi on 04<sup>th</sup> November 2023.**

This is for your information and record.

Thanking you.

For and on behalf of **TCNS Clothing Co. Limited**

Piyush Asija  
Company Secretary and Compliance Officer  
M. No: A21328

Date: 04.11.2023

Place: New Delhi



**TCNS Clothing Co. Limited**

119 & 127, W-HOUSE, NEELGAGAN TOWER, MANDI ROAD, SULTANPUR, MEHRAULI, NEW DELHI-110030, INDIA

PH: 011-42193193, Fax: 011-42193194, E-mail: corporatecommunications@tcnsclothing.com, www.wforwoman.com, www.shopforaurelia.com

REGD. OFFICE: 119, W-HOUSE, NEELGAGAN TOWER, MANDI ROAD, SULTANPUR, MEHRAULI, NEW DELHI- 110030

CIN- L99999DL1997PLC090978

# BJP, Congress fight sop for sop in Chhattisgarh

ARCHIS MOHAN  
New Delhi, 3 November

A mid buzz that the Centre was considering an income support scheme for landless tenant farmers and agriculture labourers, the Bharatiya Janata Party (BJP) has promised ₹10,000 annually for Chhattisgarh's landless agricultural labourers, a key commitment of its 47-page manifesto Union Home Minister Amit Shah unveiled in Raipur on Friday.

The BJP's manifesto, titled "Modi's guarantees for Chhattisgarh", matched the ruling Congress' "17 guarantees" for the state sop for sop. The Congress, which is yet to release its manifesto, has promised ₹10,000 annually to landless agricultural labourers. In poll-bound Telangana, the Congress has promised ₹15,000 per year to farmers and tenant farmers and ₹12,000 to agricultural labourers yearly.

Currently, the Centre's Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi gives ₹6,000 a year as minimum income support to small and marginal farmers, but it does not cover landless tenant farmers or agricultural labourers. Only Odisha's KALIA, or Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation, and Andhra Pradesh's Rythu Bharosa provide some assistance to landless tenant farmers.

Replicating the Ladli Bahna scheme of the neighbouring BJP-ruled Madhya Pradesh, Shah said the BJP, if it were to form the government in Chhattisgarh, would annually hand out ₹12,000 to all married women in the state as part of its Mahtari Vandan Scheme. The BJP's Chhattisgarh manifesto has also promised free laptops/tablets to college students and ₹2,000 annual support to street vendors.

In Chhattisgarh, the BJP joined the Congress in what has come to be termed "paddy procurement politics". Shah said "the BJP's double-engine government" in Raipur would purchase 21 quintal paddy per acre at ₹3,100 per quintal.

The Centre recently hiked the minimum support price (MSP) for paddy to ₹2,183 per quintal. In its last Cabinet meeting in September end, before the model code of conduct kicked in, the Bhupesh Baghel-led Congress regime announced

## BATTLE LINES ARE DRAWN

Modi's guarantees for Chhattisgarh	Congress' 17 guarantees
► To procure 21 quintals per acre paddy at ₹3,100 per quintal	► To procure 20 quintals per acre paddy at ₹3,000 per quintal
► ₹500 LPG cylinder for low-income families	► LPG cylinder refill at ₹500 for low-income families
► ₹10,000 annually for landless agricultural labourers	► Increasing ₹7,000 annual support for landless agricultural labourers to ₹10,000
► Free school education; free laptops, and monthly travel allowance to college students	► "KG to PG" free education; free govt-run English medium schools
► ₹12,000 monthly allowance to married women	► Waiving loans of farmers and women self-help groups
► Free pilgrimage for poor to Ayodhya's Ram temple	► Conducting a caste Census
► Breakfast for students of classes I to 8 of govt schools	► 200 units free electricity

procuring 20 quintals of paddy per acre at ₹2,500 per quintal. The Congress has announced it would procure 20 quintals per acre at ₹3,000 per quintal if it were to return to power. The party had delivered on its promise of procuring paddy at ₹2,500 per quintal in the 2018 polls when the MSP for that year was ₹1,900.

Subsequently, once the Centre refused to buy rice from states that paid above the MSP that the Union government paid, the Baghel government launched the Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana, through which it delivers an input subsidy of ₹9,000 per acre in four instalments, or ₹600 per quintal for 15 quintals that it procured per acre.

The BJP's other promises included providing cooking gas cylinders at ₹500 each for poor families, filling 100,000 vacant government posts in two years, subsidised pilgrimage to Ram temple in Ayodhya, monthly travel allowance to college students through direct benefit transfer and constructing 1.8 million houses under the PM Awas Yojana, free school education and introduce a 'free breakfast scheme', in addition to the existing 'free midday meal scheme' for students of classes first to eighth of government schools.

Of the Congress' guarantees, the

notable ones announced are cooking gas cylinders at ₹500 each, 200 units of electricity free, farm loan waiver, waiving off ₹726 crore of motor vehicle tax for 6,600 vehicle owners and introducing free education in government-run English-medium schools.

Despite the welfare schemes of the successive governments in Chhattisgarh, the state has maintained a revenue surplus. Chhattisgarh's debt, at nearly 24 per cent of its gross state domestic product (GSDP), under the Baghel government, is manageable although higher than the sub-20 per cent level during the previous Raman Singh-led regime. The state adopted the Old Pension Scheme on April 1, 2022, which could worsen its debt-to-GSDP ratio, but the impact will be evident around 2034 when employees who joined in 2004 begin retiring.

At the launch of the manifesto, Shah accused Baghel of running a corrupt government, which had become an "ATM for the Congress high command". On the Congress guarantees in the state for a caste Census, Shah said: "The BJP has never opposed this (caste Census), but decisions have to be taken very thoughtfully. We will tell at the appropriate time."

## Hitching a (political) ride

RAMANI RANJAN MOHAPATRA  
New Delhi, 3 November

Will he or won't he? That's no more the question.

Government employees, ruling Biju Janata Dal (BJD) leaders, and service associations have queued up in Naveen Niwas, the residence of Odisha Chief Minister Naveen Patnaik, to congratulate his long-time private secretary V K Pandian following his new assignment.

The Tamil Nadu-born bureaucrat last month took voluntary retirement and assumed a new role as cabinet-rank minister, ending speculation about his desire to have a more formal role in electoral politics.

Pandian is now chairman of the state government's ST (good governance model) and 'Ama Odisha, Nabin Odisha' (Our Odisha, New Odisha), and reports to Patnaik, taking him to top position at the Chief Minister's Office (CMO).

Observers see a chronology in the 2000-batch Indian Administrative Service (IAS) officer's trust with politics.

Over the past six months until September, Pandian toured the state as ST secretary, utilising helicopters sponsored by the state government, connecting with people. The ST initiative is an umbrella programme aimed at speedily completing projects.

Pandian's tour gathered 57,085 grievances, particularly from rural Odisha, which has around 80 per cent of the state's population. The CMO said 65.71 per cent of the grievances had been redressed. He also reviewed drinking water and electricity-related issues.

A study by the Association for Democratic Reforms conducted ahead of the 2019 elections found drinking water (43 per cent), water for agriculture (43 per cent), and better employment opportunities (41 per cent) as three priorities for voters in rural Odisha.

"From water supply to agriculture, and road connectivity, the government is focusing on rural Odisha, a significant vote base for the ruling party," said Brahmananda Satpathy, senior political science professor.

In the 2022 three-tier panchayat elections, the BJD secured 766 of the 852 zilla parishad seats, forming councils across all 30 districts. "Pandian's visits have indicated his close association with the chief minister and his emergence as a key power centre," said Prasanna Mishra, a retired IAS officer who writes on social and economic issues.

Media reports suggest Pandian's bureaucrat wife, Sujata R Karthikeyan, who heads the Mission Shakti department, has also sought voluntary retirement, prompting speculations of her joining politics.

Under the Mission Shakti scheme, more than 7 million women have formed over 600,000 self-help groups (SHGs), also a key vote bank for the BJD. The state provides interest-free loans of up to ₹5 lakh to SHGs. The 2023-24 Budget




Odisha Chief Minister Naveen Patnaik with ST and Ama Odisha, Nabin Odisha Chairman V K Pandian after the launch of LaccMI Bus Scheme in Kalahandi last week. PHOTO: @CMO\_ODISHA

### ST SECY'S ODISHA ROUND-UP

DURATION: 6 MONTHS

■ Area covered: All 30 districts



**MISSION SHAKTI**

■ FY24 Budget outlay: ₹2,554 crore, 27% more over FY23 Budget Estimate

■ Supplementary Budget allocation for 2023-24: ₹783 crore

Source: Odisha Budget 2023-24, Assembly

**AMA ODISHA NABIN ODISHA**

To cover 6,794 gram panchayats

### WOMEN VOTERS HOLD THE KEY

■ 16.6 mn MALE



**THIRD GENDER: 3,222**

Note: Data till January 2023, except Padampur constituency which has numbers till 2019 elections. Source: Election Commission & India Votes

**TOTAL OUTLAY ₹3,397 CRORE**

To take up 90,723 projects	49,928 projects submitted*	608 projects started
To cover 6,794 gram panchayats	Each panchayat to get ₹50 lakh	

Source: amaodisha-nabinodisha.odisha.gov.in

proposed providing business opportunities worth ₹10,000 crore to SHGs in five years to convert them into small and medium enterprises. Last month, Patnaik launched the Mission Shakti Scooter Yojna, which offers 200,000 women interest-free loans up to ₹1 lakh to buy two-wheelers.

Bureaucrat-turned-Congress leader Bijay Patnaik, however, dismissed the scheme as a political gimmick. The state goes to the polls simultaneously with the Lok Sabha elections in May next year.

In October, the government launched the ₹4,000 crore Nabin Odisha scheme with the logo containing the 'conch', which incidentally is the BJP's party symbol. The programme, with Pandian at the helm of affairs, is a model of the government's ₹1,250 crore "Ama Gaon, Ama Bikash" (our village, our development) initiative, launched in 2018-19, which helped the party in mobilising its vote bank in the last general elections. Every panchayat will get an assistance of ₹50 lakh for preserving places of worship, enhancing historically significant sites, and improving rural

infrastructure and digital access. Opposition leaders termed the scheme a ploy to fund election campaigning.

Meanwhile, BJP MP and former IAS officer Aparajita Sarangi told reporters: "Pandian has secured the rank of cabinet minister for soft-landing in politics."

Satpathy said: "Pandian's acceptance among people suggests he is there to finish the unfinished agenda of Patnaik." Now that there is no baggage of being a civil servant, Mishra saw Patnaik's increased dependence on Pandian for his party's political affairs.

Pandian has also received the attention of his well-wishers back in Tamil Nadu. Actor Kamal Haasan wrote on X: "Thiru V K Pandian, as an IAS officer, your honest and diligent administration epitomised the motto of your service—'Excellence in Action'. Under the capable leadership of Hon. CM Thiru Naveen Patnaik Ji, Odisha will further thrive and prosper, with such a formidable team at the helm of state affairs. I wish you the best as Chairman of ST Initiative and Nabin Odisha."



## TCNS Clothing Co. Limited

CIN: L99999DL1997PLC09078

Registered Office: 119, New Manglapuri, W House, Mandi Road, Sultanpur, Mehrauli, New Delhi-110030  
Corporate Office: 119 & 127, W House, Neelgagan Tower, Mandi Road, Sultanpur, Mehrauli, New Delhi-110030  
Tel.: 011-42193193; Email: investors@tcnsclothing.com; Website: www.wforwoman.com

Form No. INC-26

[Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]  
BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR,  
NORTHERN REGION, DELHI

In the matter of Companies Act, 2013, Section 13(4) r/w Rule 30(5) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

And  
In the matter of TCNS Clothing Co. Limited (CIN: L99999DL1997PLC09078) having its registered office at 119, New Manglapuri, W House Mandi Road, Sultanpur, Mehrauli, New Delhi-110030, India.

..... PETITIONER

Notice is hereby given to the General Public that the Company/ Petitioner proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association in terms of the special resolution passed by the members of the Company through Postal Ballot on November 3, 2023 to enable the Company to change its registered office from the 'National Capital Territory (NCT) of Delhi' to 'State of Maharashtra'.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the Registered Office of the company may deliver either on the MCA-21 portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, at the address of B-2 Wing, 2nd floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its registered office situated at the address mentioned below:

TCNS Clothing Co. Limited  
(CIN: L99999DL1997PLC09078)

Reg. Off.: 119, New Manglapuri, W House Mandi Road, Sultanpur, Mehrauli, New Delhi-110030, India.  
Contact No.: 011-42193193, Email id: investors@tcnsclothing.com

For and on behalf of the  
TCNS Clothing Co. Limited  
Sd/-  
Anant Kumar Daga  
Managing Director  
DIN: 07604184

Date: 04.11.2023  
Place: New Delhi

### FORM NO. CAA 2 BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL MUMBAI BENCH C.A.(CAA)/86/(MB)/2023

In the matter of the Companies Act, 2013;  
AND

In the matter of Sections 230 to 232 and Section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016;

AND

In the matter of Composite Scheme of Arrangement between Metropolitan Stock Exchange of India Limited ("MSE" or "Amalgamated Company") and MSE Enterprises Limited ("MEL" or "Amalgamating Company") and their respective shareholders

Metropolitan Stock Exchange of India Limited  
having its registered office at  
205(A), 2nd floor, Piramal Agastya Corporate Park,  
Kamani Junction, LBS Road, Kurla (West),  
Mumbai - 400 070  
CIN U65999MH2008PLC185856

.....First Applicant Company/Amalgamated Company

MSE Enterprises Limited  
having its registered office at  
205(A), 2nd floor, Piramal Agastya Corporate Park,  
Kamani Junction, LBS Road, Kurla West  
Mumbai - 400 070  
CIN - U72100MH2008PLC188032

.....Second Applicant Company/Amalgamating Company

(Collectively to be referred as 'Companies')

### JOINT ADVERTISEMENT OF NOTICE CONVENING MEETINGS OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF COMPANIES

**NOTICE** is hereby given that by an order dated 18th October 2023 (**'Tribunal Order'**), in Company Application No. C.A.(CAA)/86/(MB)/2023, the Mumbai Bench of the Hon'ble National Company Law Tribunal (**'Tribunal'** / **'NCLT'**) has inter-alia directed to convene meetings(s) of the Equity Shareholders of Metropolitan Stock Exchange of India Limited and MSE Enterprises Limited for the purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification(s), the said Composite Scheme of Arrangement between Metropolitan Stock Exchange of India Limited (**"MSE"** or **"Amalgamated Company"**) and MSE Enterprises Limited (**"MEL"** or **"Amalgamating Company"**) (together referred to as **"Applicant Companies"**) and their respective Shareholders (**"Scheme"**) pursuant to Sections 230 to 232, Section 66 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (**"Act"**) at such date and time, mentioned hereinafter, as given in the Order.

In pursuance of the Tribunal order and as directed therein, further notice is hereby given that meeting of Equity Shareholders of MSE (**"Meeting 1"**) will be held on **Thursday, 7th December 2023 at 11:00 a.m.** (IST) via video conferencing (**"VC"**) / Other Audio Visual Means (**"OAVM"**) and that meeting of Equity Shareholders of MEL (**"Meeting 2"**) will be held on **Thursday, 7th December 2023 at 2:00 p.m.** (IST) via video conferencing (**"VC"**) / Other Audio Visual Means (**"OAVM"**) (Jointly referred to as **"Meetings"**), in compliance of the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs and relevant provisions of the Act and rules made thereunder.

In pursuance of the Tribunal Order and as directed therein, the Notice of the aforesaid Meetings along with the accompanying documents, have been sent through electronic mode to those Equity Shareholders whose email IDs are registered with the Company Registered and Share Transfer Agent ("RTA") i.e. **KFin Technologies Limited** or Depositories or the Companies and by way of Courier/Post to other Equity Shareholders.

Copy of the Scheme, statements under Sections 230 and 232 read with Section 102 and other applicable provisions of the Act read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 ("CAA Rules") and accompanying documents can be accessed/downloaded from the websites of the Companies at <https://www.msei.in/> and [www.mclear.in](http://www.mclear.in) respectively; the website of the National Securities Depository Limited (**"NSDL"**) (viz. <https://www.evoting.nsdl.com>), being the agency appointed by the Companies to provide the e-voting and other facilities for convening of the Meetings. If so desired, person may obtain a physical copy of the Scheme, statements under Sections 230 and 232 read with Section 102 and other applicable provisions of the Act read with Rule 6 of the CAA Rules, etc., free of charge from the registered offices of the Companies, or written request in this regard, may be addressed to the Mr. Durgesh Kadam, Company Secretary at [secretarial@msei.in](mailto:secretarial@msei.in) for MSE and to Mr. A. Sebastian at [a.sebastian@mclear.in](mailto:a.sebastian@mclear.in) for MEL respectively; or can be obtained from the office of its Advocate viz. Mr. Hemant Sethi, 1602, Nav Parmanu, Behind Amar Cinema, Chembur, Mumbai 400071.

The Tribunal has appointed Shri Mukesh Kumar Siroya, Company Secretary, Membership No. FCS 5682, to be the Chairperson for the aforesaid Meetings and Mr. Harsh Ruparelia as the Alternate Chairperson for the aforesaid Meetings.

Mr. Rajesh Kumar Mittal, Company Secretary, Membership No. FCS 4627, shall act as the scrutiner for the aforesaid Meetings. The abovementioned Scheme, if approved by the equity shareholders of the Companies at the Meetings, will be subject to the subsequent sanction of the Tribunal and such other approvals, permissions and sanctions of regulatory or other authorities, as may be necessary.

The equity shareholders of the Companies entitled to attend and vote at the aforesaid Meetings, may vote through remote e-voting to cast their respective votes prior to the date of the Meetings, or vote in person through e-voting at the meeting, by following the instructions provided in the Notices. Since the Meetings are being held through VC/OAVM, physical attendance of the equity shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facilities of appointment of proxies by the equity shareholders will not be available for the Meetings. A member may participate in the Meetings even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the Meetings.

The cut-off date for e-voting and time period for the remote e-voting of the aforesaid Meetings is as under:

Cut-off date for e-voting	Thursday, 30th November, 2023
Remote e-voting Start Date and Time	Monday, 4th December 2023 at 09:00 a.m. (IST)
Remote e-voting End Date and Time	Wednesday, 6th December 2023 at 05:00 p.m. (IST)

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and remote e-voting module shall be forthwith disabled by NSDL upon the expiry of the aforesaid period.

An equity shareholder whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, i.e. **Thursday, 30th November, 2023** only shall be entitled to exercise his/her/its voting rights on the resolution proposed in the Notices and attend the Meetings. Voting rights of an equity shareholder/beneficial owner (in the case of electronic shareholding) shall be in proportion to his/her/its shareholding in the paid-up equity share capital of the Companies as on the cut-off date. Those persons who have acquired shares and have become equity shareholders of the Companies after the dispatch of the Notices of the Meetings by the Companies and whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners as on the cut-off date shall view the Notices of the Meetings on the Companies' websites or on the website of NSDL. Such persons may obtain/generate the login ID and password by following the process stated in the Notices of the Meetings.

Equity shareholders holding shares in physical mode, who have not registered/ updated their email addresses with the Companies, are requested to register/ update the same by writing an application to the Companies with details of Folio number and attaching a self-attested copy PAN Card to KFin Technologies Limited, RTA of the Companies at [inward.ris@kfintech.com](mailto:inward.ris@kfintech.com); or to the Companies at [secretarial@msei.in](mailto:secretarial@msei.in) for MSE and [a.sebastian@mclear.in](mailto:a.sebastian@mclear.in) for MEL.

Equity shareholders holding shares in dematerialised mode, who have not registered their email addresses with their Depository Participant(s), are requested to register/ update their email addresses with their Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts.

Equity shareholders seeking any information with regard to the Scheme or the matter proposed to be considered at the aforesaid Meetings, are requested to write an application to the Companies on or before **Thursday, 30, November 2023** through email on [secretarial@msei.in](mailto:secretarial@msei.in) for MSE and [a.sebastian@mclear.in](mailto:a.sebastian@mclear.in) for MEL.

In case of any queries relating to e-voting, equity shareholders are requested to refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of NSDL or call on toll free no.: **022-4886-7000** and **022-2499-7000** or send a request to Mr. Durgesh Kadam or Mr. A. Sebastian at [secretarial@msei.in](mailto:secretarial@msei.in) or [a.sebastian@mclear.in](mailto:a.sebastian@mclear.in) respectively.

Dated: 4th November, 2023

Sd/-  
**Shri Mukesh Kumar Siroya**  
Chairperson appointed for the meeting of the Equity Shareholders of the Companies

